

AVYAKT MURLI

18 / 06 / 74

18-06-74 ओम शान्ति अव्यक्त बापदादा मधुबन

लाइट हाउस और माइट हाउस बन, नई दुनिया के मेकर बनो!

सर्व-आत्माओं को सर्व-शक्तियों से सन्तुष्ट करने वाले, नई दुनिया के मेकर व विश्व-कल्याणी पिता शिव बोले :-

अपने को क्या लाइट हाउस और माइट हाउस समझ कर चलते हो? सिर्फ लाइट और माइट समझ कर नहीं लेकिन लाइट हाउस और माइट हाउस। अर्थात् लाइट और माइट देने वाले दाता, हाउस तब बन सकेंगे जब उनके अपने पास इतना स्टॉक जमा हो। अगर स्वयं सदा लाइट स्वरूप नहीं बन सकते व लाइट स्वरूप में सदा स्थित नहीं हो सकते, तो वह अन्य आत्माओं को लाइट हाउस बन, लाइट नहीं दे सकते। जो स्वयं ही मास्टर सर्वशक्तिमान् होते हुए, अपने प्रति भी सर्वशक्तियों को यूज नहीं कर सकते तो वे माइट हाउस बन, अन्य आत्माओं को सर्वशक्तियों का दान कैसे कर सकते हैं? अब स्वयं से पूछो कि मैं क्या लाइट और माइट हाउस बना हूँ? कोई भी आत्मा अगर कोई भी शक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए आपके सामने आये तो क्या उस आत्मा को वह शक्ति दे सकते हो? अगर सहन करने की इच्छा अथवा निर्णय करने की शक्ति की इच्छा रख

कर कोई आये और उसे समाने की शक्ति या परखने की शक्ति का दान दे दो, लेकिन उस समय उस आत्मा को जो सहन शक्ति के दान की ज़रूरत है यदि वह उसे नहीं दे सकते, तो क्या ऐसी आत्मा को महादानी, वरदानी या विश्व-कल्याणी कह सकते हैं? अगर स्वयं में ही किसी एक शक्ति की कमी होगी, तो दूसरों को सर्वशक्तिवन् बाप के वर्से का अधिकारी वा मास्टर सर्वशक्तिमान् कैसे बना सकेंगे?

सूर्यवंशी हैं-सर्वशक्तिमान् और चन्द्रवंशी हैं-शक्तिवान्। अगर एक शक्ति की भी कमी है तो सर्वशक्तिमान् के बजाय, शक्तिवान् कहलाये जावेंगे अर्थात् वे सूर्यवंश के राज्यभाग के अधिकारी नहीं बन सकते।

सर्वशक्तिमान् ही सर्वगुण सम्पन्न, सोलह कला सम्पूर्ण बनने के अधिकारी बनते हैं। कम शक्तिवान् कल्याणी बन सकते हैं, लेकिन विश्व-कल्याणी नहीं बन सकते। अगर किसी आत्मा को समाने की शक्ति चाहिये और आप उसे विस्तार करने की शक्ति दे दो वा और अन्य सब शक्तियाँ दे दो, लेकिन जो उसको चाहिये वह न दे सको, तो क्या वह आत्मा तृप्त होगी? क्या आपको विश्व-कल्याणी मानेंगी? जल्ले किसको पानी की प्यास हो और आप उसे छत्तीस प्रकार के भोजन दे दो, लेकिन पानी का प्यासा क्या छत्तीस प्रकार के भोजन से सन्तुष्ट होगा वा आपके प्रति शुक्रिया मानेगा? पानी के बदले चाहे आप उसे हीरा दे दो, परन्तु उस समय उस आत्मा के लिए पानी की एक बूंद की कीमत अनेक हीरों से ज्यादा है ऐसे ही अगर अपने पास सर्वशक्तियों का स्टॉक जमा नहीं होगा तो, सर्व-आत्माओं को

सन्तुष्ट करने वाली सन्तुष्टमणियाँ नहीं बन सकेंगे, वा सर्व-आत्मायें आपको जी-दाता, सर्व-शक्ति दाता नहीं मानेंगी। अगर विश्व की सर्व-आत्माओं द्वारा विश्व-कल्याणी माननीय नहीं बनेंगे, तो माननीय के बिना पूजनीय भी नहीं बन सकेंगे। सन्तुष्ट मणि बनने के बिना बाप-दादा के मस्तक की मणियाँ नहीं बन सकते हो। क्या ऐसे महीनता की चक्किंग करते हो वा अब तक मुख्य-मुख्य बातों में भी चक्किंग करना मुश्किल अनुभव होता ह॥

अगर चक्किंग करना नहीं आता वा सोचते हुए भी निजी संस्कार नहीं बनता, तो उसका एक टाइटल कम हो जाता ह॥ वह कौन-सा? एक-एक सब्जेक्ट का एक-एक टाइटल ह॥ चार सब्जेक्ट्स के चार टाइटल कौन-से हैं? पहला-ज्ञान के सब्जेक्ट में प्रवीण आत्मा का टाइटल ह॥ मास्टर ज्ञान सागर वा नॉलेजफुल, वा स्वदर्शन चक्रधारी कहो तो भी एक ही बात ह॥ दूसरा-याद की यात्रा में जो यथार्थ युक्ति-युक्त, योग-युक्त ह॥ उनका टाइटल ह॥ पाँवरफुल। क्योंकि याद से सर्वशक्तियों का वरदान प्राप्त होता ह॥ तो याद की यात्रा में जो यथार्थ रीति से चलने वाला ह॥ उनका टाइटल ह॥ पाँवरफुल। तीसरा सब्जेक्ट ह॥ दिव्य गुण। ऐसे दिव्य-गुण मूर्त को कौन-सा टाइटल देंगे? उनका टाइटल ह॥ दिव्य-गुणों की खुशबू फलाने वाला - इसेन्सफुल (सार-युक्त)। ज॥ इसेन्स (सार) यदि कहीं भी दूर रखा होगा, तो भी वह अपना प्रभाव डालेगा अर्थात् खुशबू फलावेगा, तो क्या ऐसे ही दिव्य-गुणों की खुशबू की इसेन्स वाली रूहानी सेन्स के इसेन्सफुल हैं? अब

अपने में चक्र करो कि क्या चारों ही सब्जेक्ट्स के चार टाइटल धारण करने के योग्य बने हो? अगर चक्रिंग करनी नहीं आती, तो फिर कौन-सा टाइटल कट होगा?

कई तो कहते हैं कि चक्रिंग करना चाहते हैं, लेकिन धक्के से गाड़ी चलती है। निजी संस्कार सदा काल नहीं चलते। इसमें कौन-सी कमी कहेंगे? नॉलेज तो है कि यह करना चाहिये। त्रिकालदर्शी-पने की नॉलेज तो मिल गयी है। क्या नॉलेजफुल हो? अभी अगर किसी भी कमजोरी वश हो जाते हो, उस कमजोरी को जानते भी हो, उसे वर्णन भी करते हो और उसके मिटाने को प्रवाइन्ट्स भी वर्णन करते हो, लेकिन वर्णन करते हुए भी, जो चाहते हो, वह कर नहीं पाते हो। नॉलेज तो बुद्धि में फुल है। लेकिन जितना नॉलेजफुल, क्या उतना ही साथ-साथ पावरफुल भी हो? यह बलेंस ठीक न होने के कारण, जानते हुए भी कर नहीं पाते हो। तो जो चक्रिंग नहीं कर पाते, उन आत्माओं का, बलेंस में रहने वाले बलिसफुल का टाइटल कट हो जाता है। वह न स्वयं को बलिस दे सकते हैं, न बाप से बलिस ले सकते हैं और न अन्य आत्माओं को ही दे सकते हैं। क्योंकि चक्र करने के निजी संस्कार नहीं बनते, तो चक्रिंग नहीं होती और चेन्ज भी नहीं होते। जो चक्र नहीं बन सकते, वह मेकर भी नहीं बन सकते, वह न स्वयं के, न अन्य आत्माओं के और न विश्व के ही। नई दुनिया बनाने वाले और नया जीवन बनाने वाले इस महिमा के अधिकारी नहीं बन सकते। इसलिए अब चक्र बनो। जैसे अमृतवेले की रूहरूहान की मुख्य

बात को सभी ने मिलकर, दृढ़ संकल्प के आधार पर, स्वयं को और अन्य साथियों को सफलतामूर्त बनाया ह॥ इसी प्रकार, इस बात को भी मुख्य जान और एक दो के सहयोगी बन सफलतामूर्त बनो। तब ही सर्व कार्य सम्पन्न होंगे।

वर्तमान समय मज्जारिटी में जो विशेष दो कमजोरियाँ दिखाई दे रही हैं, उसकी समाप्ति वा उन दो कमजोरियों में सफलतामूर्त तब बनेंगे, जब इस बात को सफल बनावेंगे। वह दो कमजोरियाँ हैं - आलस्य और अलबेलापन। इसको मिटाने का साधन चक्र बनना ह॥ 99 पुरुषार्थियों में किसी न किसी रूप में आलस्य और अलबेलापन कहीं अंश रूप में ह॥ और कहीं वंश रूप में ह॥ महारथियों में अंश रूप कौन-सा ह॥ घोड़ेसवार में वंश रूप कौन-सा ह॥ क्या उसको जानते हो? अंश रूप ह॥ कि मेरी नेचर व मेरे संस्कार। मेरी भावना नहीं ह॥ लेकिन बोल व नम्र चम्र हैं, रेखायें हैं, लेकिन रूप बने हुए नहीं हैं-यह ह॥ अंश-मात्र। सम्पूर्ण विजयी बनने में अलबेलापन अथवा रॉयल रूप का आलस्य बाधक ह॥ घोड़ेसवार वा सेकेण्ड डिवीज़न में पास होने वाली आत्माओं में वंश रूप में किस रूप में हैं? उनका रूप हैं, हर बात में, यह बोल उन्हीं का ट्रेडमार्क ह॥ हर बात में कॉमनशब्द हैं। अलबेले और आलस्यपन के शब्द कौन-से हैं? वह सदब्र अपने को सेफ रखने की प्वाइन्ट्स देने में वा बातें बनाने में बड़े प्रवीण होते हैं। स्वयं को निर्दोष और दूसरों पर दोष रखने में फूर्त होते हैं। लायर्स होते हैं। लेकिन लॉफुल नहीं होते। जसो लायर्स झूठे केस को सच्चा सिद्ध कर निर्दोषी को

दोषी बना देते हैं। वस्त्र ही सेकेण्ड डिवीज़न वाले कभी भी अपने दोष को जानते हुए भी, स्वयं को दोषी प्रसिद्ध नहीं करेंगे। इसलिये लायर्स हैं, लेकिन लॉफुल नहीं हैं। ऐसे की ट्रेडमार्क बोल सदब्र यही निकलेंगे कि मैंने यह किया क्या? मैंने यह बोला क्या? मेरे मन में तो कुछ था ही नहीं? निकल गया, तो फिर क्या हुआ? हो गया, तो फिर क्या हुआ? 'ठीक कर दूंगा।' 'फिर क्या' की ट्रेडमार्क के बोल होंगे। जस्त्रे सृष्टि-चक्र के समझाने में फिर-क्या, फिर-क्या कहते सारी स्टोरी बतला देते हो ना? सतयुग के बाद फिर क्या हुआ, त्रेता आया, फिर-क्या हुआ, द्वापर आया. फिर क्या शब्द में सारे चक्र की कहानी सुनाते हो। वस्त्रे वह लायर्स आत्मार्ये फिर-क्या शब्द के आधार पर दूसरों के ऊपर सारा चक्र चलाये देती हैं, स्वयं को साक्षी बना देते हैं वा न्यारा बना देते हैं वा छुड़ा देते हैं। 'फिर-क्या' शब्द से अर्थात् इस एक संकल्प से अलबेलेपन वा रॉयल-आलस्य का वंश अन्दर ही अन्दर बढ़ता जाता ह॥और ऐसी आत्मा को पॉवरफुल बनाने के बजाय निर्बल बनाते जाते हैं। यह ह॥सेकेण्ड डिवीजन अर्थात् घोड़ेसवार आत्माओं के अन्दर अलबेलापन और आलस्य वंश-रूप में, इस अंश वा वंश को समाप्त करने के लिये, चक्कर बनना अति आवश्यक ह॥ 8 दिन में, एक दिन चक्कर बनते हो, 7 दिन अलबेले रहते हो, तो संस्कार 7 दिन के बनेंगे वा एक दिन के? इसलिए अलर्ट बनने के बजाय इजीऔर लेजी बनते हो। ऐसे की रिज़ल्ट क्या होगी? क्या ऐसे विश्व कल्याणकारी, सर्व- शक्तियों के महादानी-वरदानी बन सकते हैं? इसलिए अब इन दो बातों को अंश- रूप में

वा वंश-रूप में, जिस रूप में भी हज़रसको अभी से मिटावेंगे, तब ही बहुत समय विजयी बनने के संस्कारों के अनुसार विजय माला के मणके बन सकेंगे। अच्छा!

ऐसे सुनने और स्वरूप बनने वाले, संकल्प को एक सेकेण्ड में साकार रूप में लाने वाले, सर्व आत्माओं को लाइट हाउस व माइट हाउस बन सर्वशक्तियों से संतुष्ट करने वाले, सन्तुष्ट मणियाँ, मस्तक मणियाँ, सदा स्वयं पर और हर संकल्प पर चक्र बनने वाले नई दुनिया के मेकर और विश्व कल्याणी आत्माओं को परमात्मा और सर्वश्रेष्ठ आत्मा बाप-दादा की याद प्यार, गुडनाइट और नमस्ते।

इस मुरली का सार

1. अगर स्वयं में ही किसी एक शक्ति की भी कमी होगी, तो दूसरों को सर्वशक्तिमान् बाप के वर्से का अधिकारी मास्टर सर्वशक्तिमान् नहीं बना सकेंगे।
2. जो चक्र नहीं बन सकते, वह न तो स्वयं के, न अन्य आत्माओं के और न विश्व के ही मेकर बन सकते हैं।



QUIZ QUESTIONS

प्रश्न 1 :- बापदादा के मस्तकमणि कौन नहीं बन सकते हऱ

प्रश्न 2 :- ज्ञान और याद के सब्जेक्ट्स के क्या टाइटल्स हैं?

प्रश्न 3 :- सर्व कार्य सम्पन्न करने की क्या विधि हऱ

प्रश्न 4 :- सम्पूर्ण विजयी ना बनने का क्या कारण हऱ

प्रश्न 5 :- वर्तमान समय दो मऱर कमजोरियाँ कौन सी हऱ और उन्हें मिटाने का क्या साधन हऱ

FILL IN THE BLANKS:-

{ इजी, चक्कर, चक्क, संस्कार, लेजी, संकल्प, वंश, शक्ति, सर्वशक्तिमान }

1 अगर एक _____ की भी कमी हऱतो _____ के बजाय, शक्तिवान् कहलाये जावेंगे

2 _____ करने के निजी _____ नहीं बनते, तो चक्किंग नहीं होती और चेन्ज भी नहीं होते।

3 'फिर-क्या' शब्द से अर्थात् इस एक _____ से अलबेलेपन वा रॉयल-आलस्य का _____ अन्दर ही अन्दर बढ़ता जाता हऱ

4 इस अंश वा वंश को समाप्त करने के लिये, _____ बनना अति आवश्यक ह॥

5 अलर्ट बनने के बजाय _____ और _____ बनते हो।

सही गलत वाक्यो को चिन्हित करे:-

- 1 :- सूर्यवंशी हैं-सर्वशक्तिमान् और चन्द्रवंशी हैं- मास्टर सर्वशक्तिवान्।
- 2 :- तो जो चक्किंग नहीं कर पाते, उन आत्माओं का, बल्लेन्स में रहने वाले ब्लिसफुल का टाइटल कट हो जाता ह॥
- 3 :- चक्कर ही सर्वगुण सम्पन्न, सोलह कला सम्पूर्ण बनने के अधिकारी बनते हैं।
- 4 :- बहुत समय विजयी बनने के संस्कारों के अनुसार रुद्र माला के मणके बन सकेंगे।
- 5 :- महीनता की चक्किंग करते हो वा अब तक मुख्य-मुख्य बातों में भी चक्किंग करना मुश्किल अनुभव होता ह॥

=====

QUIZ ANSWERS

=====

प्रश्न 1 :- बापदादा के मस्तकमणि कौन नहीं बन सकते हः

उत्तर 1 :- बापदादा ने कहा कि:-

① अगर अपने पास सर्वशक्तियों का स्टॉक जमा नहीं होगा तो, सर्व-आत्माओं को सन्तुष्ट करने वाली सन्तुष्टमणियाँ नहीं बन सकेंगे, वा सर्व-आत्मार्ये आपको जी-दाता, सर्व-शक्ति दाता नहीं मानेंगी।

② अगर विश्व की सर्व- आत्माओं द्वारा विश्व-कल्याणी माननीय नहीं बनेंगे, तो माननीय के बिना पूज्यनीय भी नहीं बन सकेंगे।

③ सन्तुष्ट मणि बनने के बिना बाप-दादा के मस्तक की मणियाँ नहीं बन सकते हो।

प्रश्न 2 :- ज्ञान और याद के सब्जेक्ट्स के क्या टाइटल्स हैं?

उत्तर 2 :- दोनों टाइटल्स के बारे में बाबा ने बताया हःकि :-

① ज्ञान के सब्जेक्ट में प्रवीण आत्मा का टाइटल हःमास्टर ज्ञान सागर वा नॉलेजफुल, वा स्वदर्शन चक्रधारी कहो तो भी एक ही बात हः

② दूसरा- याद की यात्रा में जो यथार्थ युक्ति-युक्त, योग-युक्त हः उनका टाइटल हः पाँवरफुल। क्योंकि याद से सर्वशक्तियों का वरदान प्राप्त

होता ह॥ तो याद की यात्रा में जो यथार्थ रीति से चलने वाला ह॥उनका टाइटल ह॥पाँवरफुल।

प्रश्न 3 :- सर्व कार्य सम्पन्न करने की क्या विधि बापदादा ने बताई ह॥

उत्तर 3 :- इसके लिये बाबा ने कहा ह॥कि :-

① चक्रर नहीं बन सकते, वह मेकर भी नहीं बन सकते, वह न स्वयं के, न अन्य आत्माओं के और न विश्व के ही। नई दुनिया बनाने वाले और नया जीवन बनाने वाले इस महिमा के अधिकारी नहीं बन सकते। इसलिए अब चक्रर बनो।

② जसो अमृतवेले की रूहरूहान की मुख्य बात को सभी ने मिलकर, दृढ़ संकल्प के आधार पर, स्वयं को और अन्य साथियों को सफलतामूर्त बनाया ह॥

③ इसी प्रकार, इस बात को भी मुख्य जान और एक दो के सहयोगी बन सफलतामूर्त बनो। तब ही सर्व कार्य सम्पन्न होंगे।

प्रश्न 4 :- सम्पूर्ण विजयी ना बनने का क्या कारण ह॥

उत्तर :- बाबा ने इसका मुख्य कारण बताया ह॥कि :-

① अंश रूप ह॥कि मेरी नेचर व मेरे संस्कार। मेरी भावना नहीं ह॥
लेकिन बोल व नम्र चम्र हैं, रेखायें हैं, लेकिन रूप बने हुए नहीं हैं-यह ह॥
अंश-मात्र।

② सम्पूर्ण विजयी बनने में अलबेलापन अथवा रॉयल रूप का
आलस्य बाधक ह॥

प्रश्न 5 :- वर्तमान समय दो मज्जर कमजोरियाँ कौन सी ह॥और उन्हें
मिटाने का क्या साधन ह॥

उत्तर 5 :- बाबा ने दो मज्जर कमजोरियाँ और उनको मिटाने का साधन
बताया ह॥कि :-

① वर्तमान समय मज्जारिटी में जो विशेष दो कमजोरियाँ दिखाई दे
रही हैं, उसकी समाप्ति वा उन दो कमजोरियों में सफलतामूर्त तब बनेंगे,
जब इस बात को सफल बनावेंगे। वह दो कमजोरियाँ हैं - आलस्य और
अलबेलापन।

② इसको मिटाने का साधन चक्र बनना ह॥ 99 पुरुषार्थियों में
किसी न किसी रूप में आलस्य और अलबेलापन कहीं अंश रूप में ह॥और
कहीं वंश रूप में ह॥

FILL IN THE BLANKS:-

{ इजी, चक्रर, चक्र, संस्कार, लेजी, संकल्प, वंश, शक्ति, सर्वशक्तिमान }

1 अगर एक ____ की भी कमी हप्तो ____ के बजाय, शक्तिवान् कहलाये जावेंगे

शक्ति / सर्वशक्तिमान्

2 ____ करने के निजी ____ नहीं बनते, तो चक्रिंग नहीं होती और चेन्ज भी नहीं होते।

चक्र / संस्कार

3 'फिर-क्या' शब्द से अर्थात् इस एक ____ से अलबेलेपन वा रॉयल-आलस्य का ____ अन्दर ही अन्दर बढ़ता जाता ह॥

संकल्प / वंश

4 इस अंश वा वंश को समाप्त करने के लिये, ____ बनना अति आवश्यक ह॥

चक्रर

5 अलर्ट बनने के बजाय _____ और _____ बनते हो।

इजी / लेजी

सही गलत वाक्यो को चिन्हित करे:- [✓] [✗]

1 :- सूर्यवंशी हैं-सर्वशक्तिमान् और चन्द्रवंशी हैं- मास्टर सर्वशक्तिवान्। [✗]

सूर्यवंशी हैं-सर्वशक्तिमान् और चन्द्रवंशी हैं- शक्तिवान्।

2 :- तो जो चक्रिंग नहीं कर पाते, उन आत्माओं का, बल्लेन्स में रहने वाले ब्लिसफुल का टाइटल कट हो जाता है [✓]

3 :- चक्रर ही सर्वगुण सम्पन्न, सोलह कला सम्पूर्ण बनने के अधिकारी बनते हैं। [✗]

सर्वशक्तिमान् ही सर्वगुण सम्पन्न, सोलह कला सम्पूर्ण बनने के अधिकारी बनते हैं।

4 :- बहुत समय विजयी बनने के संस्कारों के अनुसार रुद्र माला के मणके बन सकेंगे। 【✖】

बहुत समय विजयी बनने के संस्कारों के अनुसार विजय माला के मणके बन सकेंगे।

5 :- महीनता की चक्किंग करते हो वा अब तक मुख्य-मुख्य बातों में भी चक्किंग करना मुश्किल अनुभव होता हऱ 【✓】